Minda Industries Ltd.

Corporate Office



Ref.No. Z-IV/R-39/D-2/NSE/207 & 174

Date: 17/08/2017

National Stock Exchange of India Ltd.	BSE Ltd.
Listing Deptt., Exchange Plaza,	Regd. Office: Floor - 25,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),	Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Mumbai - 400 051	Dalal Street, Mumbai-400 001.
NSE Script: MINDAIND	BSE Script: 532539

Sub: Publication of Notice of the Board Meeting of the Company in the newspapers in relation to consider the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended on 30 June, 2017

Dear Sir(s),

This is in continuation to our earlier letter dated 11 August, 2017, we are pleased to enclose herewith the **newspapers cuttings** wherein the **Notice of the company** was **published on 17 August, 2017** in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) newspapers regarding the above subject matter.

It is for your information and records please.

Thanking you.

Yours faithfully,

For MINDA INDUSTRIES LTD.

/ H.C. DHAMIJA

V.P. Group Accounts, Legal, Secretarial

Indirect Taxes & Co. Secretary

Encl: As above.

THURSDAY, AUGUST 17, 2017

HIRA AUTOMOBILES LIMITED

Regd. Office: # 598, Sector 18-B, Chandigarh | CIN:- L50101CH1989PLC009500 Tel:0172-2743462 | Email : hiraaccounts@gmail.com | www.hiraautomobiles.com Extract of Unaudited Standalone Financial Results for the guarter ended

S. N.	Particulars	Quarter ending 30.06.2017 unaudited	Year ended 31.03.2017 audited	Quarter ending 30.06.2016 unaudited
1 2	Total Income from operations Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	7278.75 15.81	8295.24 47.29	6668.71 10.40
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Extraordinary items and/or Extraordinary items)	15.81	47.29	10.40
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Extraordinary items and/or Extraordinary items)	10.81	28.27	7.40
5	Equity Share Capital	275.34	275.34	275.34
6	Reserves(excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of Previous Year) Earnings Per Share before	865.84	855.03	736.44
	extraordinary items)(of Rs 10/-each)	0.00	4.00	
	Basic: Diluted:	0.39 0.39	1.03 1.03	0.27 0.27

Note: The above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results for quarter ended 30th June, 2017 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of above Results is available on the websites of Company at www.hiraautomobiles.com and BSE Limited at www.bseindia.com. For Hira Automobiles Ltd. Rahul Inder Singh Sidhu Place: Chandigarh (Managing Director) DIN-00447452

Date: 14-08-2017

SCHABLONA INDIA LIMITED CIN:L51109DL1983PLC318655

Regd.Office: 82/19, Bhakerwara Road, Mundka, New Delhi-110 041;Tel:011-2834 1085 Share Dept.:2,Red Cross Place,Kolkata-700 001 Tel: 033-2248 7406/07 Website:www.schablona.in,Email id:silinvestors@schablona.in EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE

QUARTER ENDED 30.06.2	017 (F	Rs. in Lakhs)
Particulars	Quarter Ended 30.06.2017 Unaudited	Quarter Ended 30.06.2016 Unaudited
1 Total Income from Operations	433.28	536.29
2 Net Profit/(Loss) for the period (before tax,Exceptional and /or Extraordinary items)	(112.78)	(96.45)
3 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	(112.78)	(95.72)
4 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	(112.78)	(95.72)
5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(116.40)	(98.11)
6 Equity Share Capital	126.37	126.37
7 Reserves(excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		(1,014.39)
8 Earnings Per Share of Rs.4/-each (for continuing ar		operations)
4 Design	10.001	100 441

)The above is an extract of the detailed format of the Quarter ended Financial Results filed with the Stock Exchange, i.e. BSE Limited, under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended Financial Results is available on the BSE Limited website,i.e. www.bseindia.com and on the website of the Company, i.e. www.schablona.in

Place: Noida Date: 16.08.2017

For SCHABLONA INDIA LIMITED (Satish C. Vishwakarma) Executive Director & CFO (DIN:06891937)

MINDA INDUSTRIES LIMITED

CIN: L74899DL1992PLC050333 Regd. Office: B-64/1, Wazirpur Industrial Area,

UNO MINDA E-mail: hcdhamija@mindagroup.com | Web: www.unominda.com

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 29 August, 2017 at 11.30 a.m. at PHD House, Opposite Asian Games Village, New Delhi-110016, inter-alia, to consider and approve the un-audited standalone and consolidated financial results of the Company for the quarter ended on 30 June, 2017

The Notice is also available on the website of the company www.unominda.com and also on the website of stock exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Minda Industries Limited H.C. DHAMIJA, Place : Gurgaon (Haryana) Vice President - Group Accounts, Legal, Secretarial, Date: 16 August, 2017 Indirect Taxation & Company Secretary

EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION CO. LTD. CIN - U67100MH2007PLC174759 Edelweiss House, Off C.S.T Road, Kalina, Mumbai - 400 098.



For and on behalf of the Board of

2

POSSESSION NOTICE [See Rule 8(1)]

(For Immovable Property) Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited (Assignee of State Bank of India) under Securitisation & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 20.05.2016 under Section 13(2) of the said Act calling upon the Borrower, Advance Impex Pvt. Ltd., and Guarantors - (i) Shiv Kumar Garg (Director), (ii) Mr. Rajendra Kumar Garg, (iii) Mr. Prem Chand Garg, (iv) Mr. Atul Kumar Garg, (v) Mrs. Ritu Garg, (vi) Mrs. Meenakshi Garg, Corporate Guarantor-SRP Casting Pvt. Ltd. (hereinafter collectively referred as "Guarantors") to pay the amount mentioned in the said Notices being Rs.1,15,63,65,635 (Rupees One Hundred and Fifteen Crores Sixty Three Lakhs Sixty Five Thousands Six Hundred and Thirty Five Only) as on 18.05.2016 plus interest at contractual rate within 60 days from the date of the said notice. The Borrower/Guarantors having failed to repay the said amount, notice is hereby given to the Borrower and Guarantors in particular and the public in general that the Naib Tehsildar have taken the physical possession of the properties described herein below at S.No.1 to 3, pursuant to the orders dated April 13, 2017 passed by the Hon'ble District Magistrate, Hapur in terms of the powers vested in Hon'ble District Magistrate under Section 14 of the said SARFAESI Act read with rule 8 of the said Rules and have handed over the same to the undersigned, being the Authorised Officer of Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited (Assignee of State Bank of India) (hereinafter referred to as EARC) on this 11th of August of the year 2017. The Borrower/Guarantor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The Borrower/Guarantors in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with properties will be subject to inter alia the charge of **EARC** for the said amount of a Rs.1,15,63,65,635 (Rupees One Hundred and Fifteen Crores Sixty Three Lakhs Sixty Five Thousands Six Hundred and Thirty Five Only as on 18.05.2016 together with future interest, charges & costs thereon further reduced by amounts recovered by State Bank of India (Assignor of EARC)/EARC after the said date.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTIES

- . All that part and parcel of the Factory land & buildings on Khasra Nos. 475, 476 and 484, Village Chijjarsi, Kulich Nagar, Pilkhuwa, Ghaziabad, U.P. admg. 8326 Sq.Mtrs. Owned by M/s Advance Impex Pvt. Ltd. including plant and machinery and other movables lying and situated therein. 2. All that part and parcel of the Factory land & buildings on Khasra Nos. 476 and 484, Village Chijiarsi, Kulich Nagar, Pilkhuwa, Ghaziabad, U.P.
- admg. 7186 Sq.Mtrs. is owned by SRP Casting Pvt. Ltd. including plant and machinery and other movables lying and situated therein. 3. All that part and parcel of the Factory land & buildings on Khasra Nos. 690 & 693, Village Khera Dehat, Pilkhuwa Ghaziabad, U.P. admg.

13,955 Sq.Mtrs. Owned by Advance Impex Pvt. Ltd. including plant and machinery and other movables lying and situated therein.

Date: August 11, 2017 Place: Pilkhuwa,

(3.11)

Sd/- Authorised Officer Ghaziabad Edelweiss Asset Reconstruction Company Ltd.

DECOROUS INVESTMENT & TRADING CO. LTD. Regd. Office: R-489, GF-B, New Rajinder Nagar, New Delhi – 110060 Tel No.: 9910003638,

Email Id: decorous1982@gmail.com Website: www.ditco.in CIN: L67120DL1982PLC289090 NOTICE

Notice is given that 34TH AGM will be held or Monday, 25.09.2017 at 10:00 A.M. at its Regd Office to transact Business(es) as set out in the NOTICE of AGM, E-Voting from 22.09.2017 09.00 A.M. TO 24.09.2017 - 05:00 P.M. Register of Members & Share Transfer Books will remain Closed from 22.09.2017 to 25.09.2017. Notice / Annual Report available at Company's Website for download, Etc.

Raj Kumar Gupta Date: 16.08.2017 WTD & CFO Place : New Delhi DIN: 00074532

hudco

BUCKINGHAM INDUSTRIES LIMITED Regd Office: R-489, GF-D. New Raiinder Nagar, New Delhi - 110060 Tel: 09990903638 Website: www.buckingham.in

Email: buckingham1983@yahoo.com CIN: L27310DL1983PLC314401 NOTICE Notice is given that 34TH AGM will be held

on TUESDAY, 26th September, 2017, a 10:00 A.M. at its Regd Office to transac Business(es) as set out in the NOTICE of AGM., E-Voting from 23.09.2017 - 09.00 A.M. TO 25.09.2017 - 05:00 P.M., Register of Members & Share Transfer Books will remain Closed from 23.09.2017 to 26.09.2017., Notice / Annual Report available at Company's Website fo download, Etc. **MEENAAGGARWAL**

WTD & CFO Place: New Delhi Date: 16.08.2017 DIN: 07153996

Housing & Urban Development Corporation Ltd. (A Govt. of India Enterprise) CIN: L74899DL1970GOI005276 GST NO. 07AAACH0632A1ZF Regd, Office : Core 7 A, HUDCO Bhawan, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-0 Phone: 011-24648160, 24648420, 24627176, 24649610-23

Fax: +91-011-24625308, Website: www.hudco.org e-TENDER NOTICE Housing & Urban Development Corporation Limited invites e-tenders for the following: E-tender for Empanelment of a Firm for installation of Eight Tea/Coffee Vending

Machine and supplying of Tea/Coffee and Green Tea to HUDCO employees, For further details please visit our website www.hudco.org, Government Website

http://eprocure.gov.in or http://hudco.etenders.in All further information in this regard shall be published on Website only.

JEEVAN VIKAS BUILDING, 30/31 A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

Tel.: 23214201, 23213945, Fax: 23216713

E-AUCTION FOR SALE OF PLOT MSTC WILL HOLD E-AUCTION OF BUILDING AND STANDING STRUCTURE AT PLOT NO. 51 & 52 ON 22.08.2017 & PLOT NO. 191 ON 29.08.2017 ON LEASE BASIS ON BEHALF OF NOIDA SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY. FOR DETAILS PLEASE CONTACT

MR. SOURABH KUMAR (MSTC) TEL No.: 011-23219173, MR. R.P. VERMA (NSEZ) TEL No.: 0120-2567270

For details log on to our website www.mstcecommerce.com or www.mstcindia.co.in

INDAG

INDAG RUBBER LIMITED CIN: L74899DL1978PLC009038

Regd. Office: 11 Community Centre, Saket, New Delhi - 110017 Email: info@indagrubber.com: Website: www.indagrubber.com: **Phone:** 011-26963172

NOTICE FOR THE LOSS OF SHARE CERTIFICATE NOTICE is hereby given to the general public that the following share

certificate of the company have been reported to be lost/not traceable by the

Sr. No.	Name of the Shareholder	Folio No.	No. of Share	Certificate(s)	Distinctive No. From To
1	Sunil Kedia	S01535	250	1738	614771 - 615020
Members of public are hereby cautioned that buying selling or otherwise dealing in the					

nembers of public are hereby cautioned that buying, selling or otherwise dealing in the above mentioned share certificate by any person shall be illegal and he shall do so at his own risk. The company will not liable for the same

Notice be and is hereby further given that the company has received a request for issue of duplicate share certificate in lieu of the original. If no objection is received from any members or the public within 15 days from the date

of publication of the notice, then the company will proceed to issue duplicate share certificate in lieu of the aforesaid lost share certificate. For Indag Rubber Limited

Place: New Delhi Date: August 16, 2017 **Company Secretary**

S.P. APPARELS LIMITED

Registered Office: 39-A, Extension Street, Kaikattipudur, Avinashi 641654, Tirupur District, Tamilnadu. Tel: +91 4296-714000 Website: www.spapparels.com Email: csoffice@s-p-apparels.com CIN: L18101TZ2005PLC012295 Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2017.

CORRIGENDUM

Reference advertisement dated **16th August, 2017**

as millions. Rest remains the same. For S.P.Apparels Limited K. Vinodhini

Place: Avinashi Date: 17th August, 2017 **Company Secretary and Compliance Officer**

appeared in the press, all the numbers should be read

DELHI STATE INDUSTRIAL AND DSILDC INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD. Office of the Executive Engineer CD-24 (UC) Plot No. No.74-A, Ring Road,

Lajpat Nagar-III, New Delhi-110024

NOTICE INVITING e-TENDER The Executive Engineer DSIIDC invite on behalf of Govt. of NCT of Delhi/MD, DSIIDC online Percentage rate bids on two bids system for the Development works (C/o Roads & S.W. Drains (Sanitation) in different Unauthorized colonies of Delhi (NITs) for 03 works).

The Bids forms, Estimated Cost, EMD, Period of completion, Last date & time of submission of bids and other details can be obtained from the website www.govtprocurement.delhi.gov.in The Press Notice is also available on www.dsiidc.org. Bidders shall check regularly to the above websites for any correction in NITs/Corrigendum, if any. E.E. CD-24 (UC)

P R HOLDINGS LIMITED

Regd. Office: R-489, GF-C,

New Rajinder Nagar, New Delhi - 110060

Tel: 011-42475489

Website: www.prholding.in

Email: prholding1983@gmail.com

CIN: L27310DL1983PLC314402

NOTICE

Notice is given that 34TH AGM will be held

on Monday, 25.09.2017 at 02:00 P.M. at its

Regd Office to transact Business(es) as se

out in the NOTICE of AGM., E-Voting from

22.09.2017 - 09.00 A.M. TO 24.09.2017

05:00 P.M., Register of Members & Share

Transfer Books will remain Closed from

22.09.2017 to 25.09.2017., Notice / Annua

Report available at Company's Website for

RICHAAGARWAL

WTD & CFO

DIN: 07223813

download, Etc.

Date: 16.08.2017

New Delhi

SWAGTAM TRADING & SERVICES LIMITED Regd. Office: R-489, GF-A, New Rajinder Nagar, New Delhi – 110060 Tel: 011-42475489

E-mail: swagtam1984@gmail.com Website: www.swagtam.com CIN: L51909DL1984PLC289131 **NOTICE** Notice is given that 32ND AGM will be held on

TUESDAY - 26.09.2017 - 02:00 P.M. at its Regd Office to transact Business(es) as set out in the NOTICE of AGM., E-Voting from 23.09.2017 09.00 A.M. TO 25.09.2017 - 05:00 P.M. Register of Members & Share Transfer Books will remain Closed from 23.09.2017 to 26.09.2017. Notice / Annual Report available at Company's Website for download, Etc.

Sumit Gupta

DIN: 06911742

Director

Date: 16.08.2017 Place: New Delhi

ADINATH TEXTILES LIMITED Regd. Office: Village Bholapur, P.O. Sahabana, Chandigarh Road, Ludhiana- 141 123 Tel.: +91 161-6574125, 9876100948 Fax: +91 161-2685270 Email: atl@shreyansgroup.com Website: www.adinathtextiles.com CIN: L17115PB1979PLC003910

COMPANY NOTICE Pursuant to Regulation 47 read with regulation 29 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company shall be held on Tuesday, the 12ⁿ day of September 2017, inter alia to consider Un-audited Financial Results for the guarter ended 30th June, 2017.

Pursuant to regulation 47(2) of the above said regulations, the said notice can be accessed on Company's website at www.adinathtextiles.com and also on the portal of Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com. For Adinath Textiles Limited

Company Secretary Dated: 16-08-2017

Regd. & Works Office: 'SAURABH', Chittora Road, Harsul Mod, Diggi-Malpura Road, Teh.: Phagi, Jaipur - 303 904

NOTICE Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 (1)(a) of SEBI (Listing and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 1st September, 2017 at corporate office of the company inter alia, to

consider and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended 30th June, 2017. The further details related to above mentioned intimation are also available on Company's website www.gravitaindia.com and on website of Stock Exchanges i.e. NSE- www.nseindia.com and BSE-

www.bseindia.com. By order of the Board Place: Jaipur Nitin Gupta

Dated: 16th August, 2017

(Company Secretary)

Africa is opening up to

Gabon, politically and

economically one of

the most stable coun-

tries in the continent,

has clearly taken the

investors by doling out

a number of fiscal and

non-fiscal incentives.

The Gabon Special

Economic Zone has

emerged as Africa's

manufacturing hub

and entrepreneurs

are welcome to

benefit from the

unlocked by it.

of Libreville).

from across the globe

business opportunities

(20 km from the capital city

Gabon SEZ ... as of today

The SEZ at Nkok currently has

120 customers and foreign di-

rect investment expected is

lead in attracting

investments and

celebrating An initiative by ROO* Exchange Strain S

Make Gabon your next investment destination

UNCTAD report highlights features that have made the African nation an FDI hotspot

■ ITUATED in Central Africa, Gabon is the gateway to a consumer market that is 250 million in size. This very fact has made investors explore the opportunities, the lands and waters here. The 5.2 million hectares of arable land and availability of immense natural resources such as natural gas, potentially packed mining sites, and abundant manganese (Gabon is the world's thirdlargest producer of high-grade manganese) are only some of the attractions of this country. And to top it all, this tropical rain forest region has an ecosystem that offers natural beauty and verdure that one would definitely not want to give a miss.

Development in Gabon does not happen to the exclusion of respect for its special biodiversity. Its virgin coastline arena is a habitat of mysteries unto itself and one that needs to be dived into.

Besides being a strategic location for accessing the huge markets on the African continent, there is political and social balance in the nation, a lynchpin to flourishing businesses anywhere. The people here are a multi-ethnic consortium of 50 vibrant local cultures welcoming all and sundry to the country.

There is the Exclusive Economic Zone highlighting how sustainable development can be effected (at the coastlines and in the ocean so as to imbibe the best-practices for the healthy survival of fishes, whales and marine wildlife) without disrupting the natural flora and fauna.

The concept of 'Emerging Gabon' unfurled in the year 2010 also looks towards a sus-

THE 5.2 MILLION HECTARES OF ARABLE LAND AND THE AVAILABILITY OF NATURAL RESOURCES ARE SOME OF THE ATTRACTIONS OF THIS COUNTRY

tainable development strategy based on a trident of Green and Blue Gabon pillar, Industrial Gabon pillar and Services Gabon pillar. Maintaining ecodiversity with sustainable development, promoting local processing of raw materials, export of high value-added prod-

ucts and the diversification of the economy along with strengthening of human resources by focusing on services are the ways in which the country has chosen to put its best

steps forward. Gabon is committed to investing in creation of an infrastructure base necessary for development to take place. It is estimated that \$21 billion would be spent to strengthen infrastructure and support the non-oil growth areas.

Gabon's economy is effectively marching ahead with its primary, secondary and tertiary sectors indexed for the steady growth of the country and its people. The secondary sector is estimated to take the lead in this journey.

Structural reforms are taking place simultaneously and the positive UNCTAD report on FDI highlights the new open policies, numerous reforms, tax relief for several businesses, new opportunities in the national market and the diversification of trading partners that are making Gabon the go-to investment destination. On offer is the milieu that is to be expected of any place where investment is likely to happen. Investors wanting to reap benefits tomorrow must not lose sight of the country that has come of age.

ABON is a picturesque and natural resourcerich country in West Central Africa. Politically and socially, it has been one of Africa's most stable countries since its Independence in 1960. Gabon has the best assessment in country risk of the Central African sub-region with a B rating and is ranked 2nd in Central Africa for good governance on the 2014 Mo Ibrahim Foundation Index.

With astonishing resources of Oil, Manganese, tropical forest with more than 400 identified species and some major infrastructure assets, Gabon is the new face of the progressive and prosperous Africa. With a strategic location in the heart of Africa, Gabon offers an ideal gateway for entry into a regional market of 250 million consumers. This is why several multinationals and visionary SMEs have been attracted to it and have decided to establish their businesses in the country.

GABON FOREST ... home of Okoumé

Boasting the second highest forestry potential in Africa, Gabon's forests cover 22.8 million hectares, i.e. 88% of the country's land surface. The tropical forest offers enormous possi-

A country that has come of age bilities with reserves of 400 million cubic metres of exploitable timber. Until 2010, i.e. before the ban on export of raw logs, Gabon was the largest exporter of raw wood in the region, and its sales represent 20% of Africa's raw wood exports. Gabon's reserves of exploitable timber include 130 million cubic metres of Okoumé. The other woods are Iroko, Beli, Ovangakol, Dabema, Sapelli, Sipo, Acajau, Kossipo, Andoung, Gheombi, Tali, Padouk, Debetou, Okan, Azobe, Movingui

and Belinga. A new forest law has come into force that emphasises Sustainable Forest Management (SFM) as the overall approach

Gabonese Republic is aiming to turn Gabon into a world leader in certified tropical timber production through an industrial strategy aimed at sustainably managing timber stocks and promoting secondary and tertiary processing.

in forestry. Gabon has a low deforestation rate, forests rich in valuable timber species and among the best prospects for a healthy and sustainable timber industry. The timber industry is already the largest private sector employer, employing 28% of the working population, and represents an extremely significant growth potential.

OKOUMÉ

Gabon supplies 90% of the



world's Okoumé, known worldwide for the production of plywood. Aucoumeaklaineana (Angouma, Gaboon, or Okoumé) is a medium-sized hardwood tree growing to 30-40 m with a trunk diameter in the range of 1 to 2.5 metres. Its attractive appearance means that it is often used decoratively as the top surface veneer in panelling and furniture or in solid form in items such as boxes for cigars or other high value goods. Widely recognised as one of the world's best materials for rotary cut veneers, Okoumé timber is easy to work and is as suitable for the manufacture of furniture as for interior joinery.

GABON SPECIAL ECO-NOMIC ZONE (GSEZ) ... a

competitive business environment In the last decade, African coun-

tries have promoted the idea of processing of natural resources within their jurisdiction itself so as to generate employment and give a boost to their economies. With the same strategy, Gabonese Republic banned exports of raw timber in 2010. Subsequently, the Gabonese Republic embarked on a journey to provide an amenable ecosystem and infrastructure to facilitate the processing of timber and other natural resources within Gabon. Towards the same end, the Gabonese Republic, in partnership with Olam International Ltd, developed a special economic zone in 2010 which is spread over 1126 ha and located at Nkok

worth more than \$1.7 bn. The

investors who have invested so far are from 15 nationalities; of these, 40 are from India. The industries making the SEZ as their base are mainly those into wood transformation (saw mill, veneer and plywood), ferro-alloys, construction materials, pharmaceuticals, food processing, telecom equipment, waste & metal recycling and warehousing, etc. As of today, 41 companies are already into production and another 29 companies are in different stages of construction.

* 🔞 📵 📵 (READ. ENGAGE. DELIVER.) IS THE MARKETING SOLUTIONS TEAM OF THE INDIAN EXPRESS GROUP

भारत, अमेरिका क्षेत्रीय शांति के लिए 'अनुकूल' संबंध बना सकते हैं: चीन

बेजिंग, 16 अगस्त (भाषा)।

चीन ने बुधवार को कहा कि उसे उम्मीद है कि भारत और चीन ऐसे संबंध बना सकते हैं. जो क्षेत्रीय शांति और विकास के लिए 'अनुकूल' हों।

वाइट हाउस के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड टंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत-प्रशांत क्षेत्र में एक नई मंत्री स्तरीय वार्ता करके शांति और स्थिरता को बढाने पर सहमत हुए हैं।ट्रंप ने भारत के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सोमवार को मोदी से बात कर उन्हें बधाई दी थी।अमेरिका और भारत द्वारा मंत्री स्तरीय वार्ता स्थापित करने के निर्णय के बारे में



पृछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा 'हमने प्रासंगिक रिपोर्ट र्देखी है। हमें उम्मीद है कि भारत और अमेरिका ऐसे संबंध विकसित कर सकते है जो क्षेत्रीय

शांति और विकास के लिए अनुकूल हों।' एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढती मुखरता के बीच भारत और अमेरिका ने मंत्री स्तरीय बातचीत करने का निर्णय लिया।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से टेलीफोन पर बात की और उन्हें कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत के लोगों को बधाई दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा 'टिलरसन और स्वराज के बीच अच्छी बातचीत' हुई। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं के बीच विदेश और रक्षा क्षेत्र में तालमेल बनाने के लिए नवगठित टू प्लस ट् तंत्र पर विचार-विमर्श हुआ।

उपराष्ट्रपति वेनेजुएला संकट पर लातिन

अमेरिका के देशों को एकजुट करने के लिए इन

देशों की यात्रा पर हैं। इससे पहले वह

कोलंबिया गए और बुधवार को उन्हें चिली और

उसके बाद पनामा जाना है।

बांड सर्टिफिकेटस के गुम होने की सुचना

कपया ध्यान दें कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लि. के 91 ए तथा 92 ए सीरीज टैक्स—फ्री बांडस से

. संबंधित निम्न बांड सर्टिफिकेट पंजीकृत बांड–धारकों / दावेदारों द्वारा गुम हो गए हैं और उन्होंने डुप्लीकेट

क्र फोलियो बांड धारक / दावेदार एलओए / बॉंड की विशिष्ट बांड की कुल अंकित

बीसी सं.

300427

किसी व्यक्ति को उपरोक्त बांड सर्टिफिकेटों में कोई दावा या अधिकार या रुचि है तो वह कंपनी के पंजीकृत

कार्यालय में इस सूचना के जारी होने के 15 दिन के भीतर अधोहरताक्षरी को अधिसूचित करें जिसके बाद कंपनी के लिए जैसा उचित होगा इस मामले में कार्रवाई करेगी। कृपया ध्यान दें कि दावा प्रारंभ से ही पर्याप्त दस्तावेजी सबूतों के साथ किया जाए, अन्यथा दावा अस्वीकार किया जा सकता है।

आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली-110020 निविदा सूचना (केवल ई-टेंडर के माध्यम से)

'सीएमएलके/खाद्वास (राजस्थान) में इंटरमीडिएट टिवस्ट लॉक सेमी आटोमेटिक की सप्लाई'' हेर

-टेन्डर माध्यम से एक बोली प्रणाली के आधार पर ऑनलाइन खुली ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। वेबसाइट

(www.tenderwizard.com/CCIL) के माध्यम से 1000.00 रू. का ऑनिलाइन भूगतान करने के उपरांत बोली दस्तावेज

₹ 1,12,960/- ई-भूगतान के माध्यम से

बांड सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अनुरोध किया है-

आईआरडी

0300427

कॉनकॉर CONCOR

एक नवस्त्न कंपनी

अनुमानित लागत

हिलिवरी अनुसूची

धरोहर जमा राशि

तिथि एवं समय

दस्तावेज की लागत

निविदा प्रोसेसिंग फीस

निविदा जमा करने की

स्थानः गुड़गांव (हरियाणा)

Particulars

(after Extraordinary items)

quity Share Capital

(FV of Rs.10/- each)

(FV of Rs.10/- each)

Place: New Delhi

Total income from operations (net)

Net Profit' (Loss) for the period after tax

Net Profit' (Loss) from ordinary activities after tax

in the Balance Sheet of previous year)
Earnings Per Share (before extraordinary items)

Earnings Per Share (after extraordinary items)

igure from audited balance sheet as on 31.03.2017

"# Figure from audited balance sheet as on 31.03.2016

ive is an extract of the detailed for

Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown

तिथि: 16 अगस्त, 2017

हस्ताक्षर

4. सखबीर सिंह

निदेशक

हस्ताक्षर

4. सोमदत्त शर्मा

हस्ताक्षर

8. मनीश सेतिया

12. कमलेश शर्मा

बिक्री की तिथि (ऑनलाइन)

खोलने की तिथि व समय 11.09.2017 को 15:30 बजे

CIN: L74899DL1992PLC050333

lMINDA INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: B-64/1, Wazirpur Industrial Area,

का बताया गया नाम

ओम प्रकाश

इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लि.

यूजी—प्रलोर, ईस्ट टॉवर, एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, लोधी रोड, नई दिल्ली—110003

सं. से-तक

1035092-

159904-

भारतीय कटेनर निगम लिमिटेड

CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.

(भारत सरकार का उपक्रम) (A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)

कॉन/एनआर/टीकेडी/टीईसीएच/इंटरमिडिएट/टिव्स्ट लॉक सेमी आटोमेटिक/2017

परचेज ऑर्डर जारी करने के 120 दिनों के अन्दर मंटिरियल की आपूर्ति होनी चाहिए

₹ 3,332/- (अप्रतिदेय) सभी कर एवं उच्चिटयों सहित ई-भुगतान के माध्यम से

₹ 1000/- सभी कर एवं ड्यूटियों सहित ई-भुगतान के माध्यम से

17.08.2017 को 11:00 बजे से 07.09.2017 (16:00 बजे तक)

08.09.2017 को 15:00 बजे तक या उससे पहले

योग्यता अर्हताए एवं अन्य विवरणों हेतु कृप्या www.concorindia.com या eprocure.gov.in थ www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉग ऑन करें। निविदादाताओं से अनुरोध है कि वेयसाईट नियमित रूप से देखें

E-mail: hcdhamija@mindagroup.com | Web: www.unominda.com

सूचना

सेबी (सुचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन

29 के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक

मंगलवार, 29 अगस्त, 2017 को 11.30 पूर्वा. में पीएचडी हाउस, एशियन गेम्स विलेज के सामने, नई दिल्ली-

110016 में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही 30 जून, 2017 को समाप्त तिमाही के लिए

यह सूचना कंपनी की वेबसाईट http://www.unominda.com तथा स्टॉक एक्सचेजों की वेबसाइटों

CSL FINANCE LIMITED

(Formerly known as, 'Consolidated Securities Limited')
Regd. Office: 8/19, Ground Floor, Pusa Lane, W.E.A., Karol Bagh, New Delhi-110005

(CIN: L74899DL1992PLC051462; Tel/Fax:011-42503442; Email:info@consec.in; Web:www.consec.in)

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30° June, 2017

with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements). Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Quarterly Financial Results of the quarter ended

0.06.2017 are available on the Stock Exchange website - www.bseindia.com and on the company's

ENDED

30.06.2017

UNAUDITED)

388.30

8.29

468.22 10954.15*

कंपनी के अनंकेक्षित स्टैण्डएलॉन तथा समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।

(http://www.bseindia.com) तथा (http://www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

कींनकोर किसी भी या सभी निविदाओं को बिना कारण बताए अस्वीकार कर सकता है। कार्बकारी निदेशक / उत्तरी क्षेत्र

संयुक्त महाप्रबंधक (एफ एंड ए)/आईआरएफसी

की संख्या मूल्य ₹ में

2

JNO MINDA

मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड

एच.सी. धमीजा

Amount (Rs. In lacs)

Corresponding

Quarter ended

30.06.2016

(UNAUDITED)

609.62

468.22 9368*#

13.02

13.02

13.02

13.02

By order of the Board

पंजाब एंड सिंध बैंक

Managing Director (DIN: 00045077)

(Rohit Gupta)

के बोर्ड के लिए तथा उसकी ओर से

अप्रत्यक्ष कर एवं कंपनी सचिव

वी.पी. ग्रुप एकाउंटेंट्स, लीगल, सेक्रेटेरियल,

ENDED

31.03.2017

(AUDITED)

5.08

5.08

₹5. 2000000.00

₹5. 2000000.00



ब्यूनस आयर्स, १६ अगस्त (एएफपी)।

अमेरिका के उप राष्ट्रपति माइक पेंस को वेनेजुएला में चल रहे संकट से निपटने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित सैन्य विकल्पों की चेतावनी को लेकर लातिन अमेरिका के सहयोगी देशों से शिकायतें मिल रही हैं।अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री ने कल माइक पेंस के साथ प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि सेना का इस्तेमाल करना कोई हल नहीं है। बल्कि इसके बजाय राजनीतिक दबाव बनाना चाहिए। पेंस लातिन अमेरिकी देशों की यात्रा पर हैं। ट्रंप ने शुक्रवार को चेताया था कि वह वेनेजुएला संकट को हल करने के लिए 'जरूरी होने पर सैन्य विकल्पों के इस्तेमाल समेत' कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने ट्रंप की चेतावनी के

गणेश लीजिफन प्राईवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय बी-86 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 नई दिल्ली-110020

सिनः यू७४८९९डी.एल.१९९५पी.टी.सी.०६५२२८

ईमेल आई.डी-setia15@vsnl.com (Mobile- 9871690615)

आम सूचना

(भारतीय रिजर्व बैंक पंजीकरण नं. बी-14.02227)

सचित किया जाता है कि गणेश लीजिफन प्राईवेट लिमिटेड (यहां बाद में कम्पनी कहा गया है) के निदेशक मण्डल

ने 02.04.2016 को कम्पनी का प्रबन्ध एवम नियन्त्रण हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था। उसके बाद कम्पनी

के सदस्यों/अंशधारकों ने 30.04.2016 को उसको स्वीकृत किया था। कम्पनी ने 31.05.2016 को अपने आवेदन

पत्र दिनांक 18.05.2016 द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली को पूर्व अनुमति के लिए आवेदन किया था और

भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली ने अपने पत्र संख्या डीएनबीएस/नदि/536/सीएमएस, IX/नं.

2907/05.07.2017/2016-17 दिनांक जून 20, 2017 द्वारा पूर्व अनुमित प्रदान कर दी। आवेदन पत्र/अनुमित पत्र

के अनुसार (1) श्रीमती अमरजीत ओबेराय पुत्री श्री केशर सिंह डांग निवासी-100, ब्लॉक 3, ईरोज गार्डन,

सूरजकूंड, फरीदाबाद-121009, (हरियाणा) एवम् (2) श्रीमती ज्योति शर्मा पुत्री श्री सतपाल सालवन निवासी

16, ब्लॉक-1, ईरोज गार्डन, चार्म वुड विलेज, सूरजकुंड, फरीदाबाद-121009 (हरियाणा) जो कि कम्पनी के

वर्तमान निदेशक एवं अंशधारक है एवम श्री बिमल कुमार शर्मा पुत्र श्री सोमदत्त शर्मा निवासी मकान नं. 16, ईरोज

गार्डन, चार्म वुड विलेज, सूरजकुंड, फरीदाबाद-121009 (हरियाणा) जो कि कम्पनी के वर्तमान निदेशक है

(हस्तांतरक) ने कम्पनी–गणेश लीजफिन प्राईवेट लिमिटेड (एनबीएफसी) के अपने व अन्य अंशधारकों के सम्पूर्ण अंश (उनकी सहमति से जो कि ईजीएम दिनांक 30.4.2016 पर आधारित है) बेचने और कम्पनी का स्वामित्व

व अधिपत्य (1) श्री सुखवीर सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री जिले सिंह निवासी बी-3/503, पार्श्वनाथ एग्जोटिका, सेक्टर-53, गोल्फ कोर्स रोड, गुड़गांव-122002 (हरियाणा) एवम (2) श्रीमती सुनीता रानी पत्नी श्री सुखबीर सिंह बी-

3/503, पार्श्वनाथ एग्जोटिका, सेक्टर-53, गोल्फ कोर्स रोड, गुड़गांव-122002 (हरियाणा) को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव करते हैं (हस्तांतरकी)। अंशधारक/हस्तांतरक एनबीएफसी संबंधित व्यापार नही करना चाहते है

इसलिए वे अंश बेचना चाहते हैं। हस्ततांरकी एनबीएफसी संबंधित व्यापार करना व बढ़ाना चाहते हैं, इस लिए

वे अंश लेना चाहते हैं। सूचना अवधि के 30 दिन पूरा होने के बाद (1) श्री सुखबीर सिंह एवम (2) श्रीमती

सुनीता रानी जो कम्पनी के प्रस्तावित अंशधारक हैं कम्पनी का संपूर्ण अधिग्रहण कर लेंगे। कम्पनी श्री अशोक

कुमार अजमानी पुत्र श्री विश्वामित्र अजमानी निवासी मकान नं. 896, सेक्टर-37 फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)

को स्वतन्त्र अतिरिक्त निदेशक/स्वतन्त्र निदेशक नियुक्त करेगी और (1) श्रीमती अमरजीत ओबेराय, (2) श्रीमर्त

ज्योति शर्मा एवम् (3) श्री बिमल कुमार शर्मा, वर्तमान निदेशक सूचना अवधि के 30 दिन पूरा होने के बाद त्याग

पत्र देंगे। कोई भी व्यक्ति चाहे वह लेनदार हो जिसका कम्पनी के नियन्त्रण और प्रबंधन के प्रस्तावित परिवर्तन में

आपत्ति हो वह कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को और /या भारतीय रिजर्व बैंक, 6 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

यह सचना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मास्टर निर्देशों डी.एन.बी.आर/पी.डी.007/03.10.119/2016-17 दिनांक

सितम्बर, 01, 2016 के पैरा 62 के अनुसार एवम सर्कुलर संख्या डीएनबीएस (पीडी) सीसी. नं

82/03.02/2006-07 दिनांक अक्टूबर 27, 2006 के पैरा 2 के अनुसार संयुक्त रूप से कंपनी (एनबीएफसी).

2. बिमल कुमार शर्मा

2. सुरेश कुमार सिंगला

6. अमरजीत ओबेराय

10. प्रदीप अधाना

हस्ताक्षर

14. डी. शर्मा

2. सुनीता रानी

3. ज्योति श्मा निदेशक

3. माया कुमारी

7. सदर्शन सेतिया

11. मधु शर्मा

15. हरप्रीत सिंह ओबेराय 16. पवन कुमार शर्मा

(क्षेत्रीय कार्यालय) को भी लिख सकता है।

हस्तांतरकों व हस्तान्तरिकयों द्वारा दिया गया है।

फॉर गणेश लीजफिन प्राईवेट लिमिटेड

हस्ताक्षर

1. अमरजीत ओबेराय

निदेशक

1. नरेश कुमार सिंगला

हस्ताक्षर

5. ज्योति शर्मा

हस्ताक्षर

9. दिनेश सेतिया

हस्ताक्षर

13. जंगी मेहता

17. निखिल शर्मा

1. सुखबीर सिंह

(सभी 2 प्रस्तावित अंशधारक)

(सारे 17 अंशधारक)

स्थानः नई दिल्ली

दिनांक:

जारीकर्ता

जवाब में अपने सशस्त्र बलों को अगले सप्ताह करने और आर्थिक अराजकता के जवाब में राष्ट्रीय अभ्यास करने का आदेश दिया ट्रंप की सत्ता पर अपनी पकड मजबूत कर रहे हैं। देश घोषणा के असर को कम करने की कोशिश में फैली अशांति में हाल के महीनों में करीब करते हुए पेंस ने इस बात पर जोर दिया कि 130 लोगों की मौत हो गई।अमेरिका के शांतिपूर्ण तरीके से दबाव बनाना उनकी प्राथमिकता है लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि ट्रंप अपने कहे पर विचार कर रहे हैं। पेंस ने कहा, 'अमेरिका के पास कई विकल्प हैं। लेकिन हमारा मानना है कि मादुरो

सरकार पर न केवल अमेरिका में बल्कि दुनियाभर में आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बढ़ा कर हम शांतिपूर्ण तरीकों से वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाल कर सकते हैं।' अर्जेंटीना और अन्य क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ अमेरिका ने मादुरो की आलोचना की है। मादुरो चुनाव की मांग कर रहे विपक्ष द्वारा सडकों पर प्रदर्शन

अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने

सिख धर्म के बारे में अमेरिका में होगा विज्ञापन

वाशिंगटन, १६ अगस्त (भाषा)।

की समीक्षा की गई।

इस्लामाबाद, 16 अगस्त (भाषा)।

शांति और प्रगति से जुड़ा है।

पाकिस्तान ने बुधवार को कहा कि जम्मू

प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी की

कश्मीर के महत्वपूर्ण मुद्दे समेत सभी लंबित

मामलों का समाधान प्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रीय

अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय सुरक्षा समिति

(एनएससी) की पहली बैठक में यह कहा

गया। बैठक के दौरान आंतरिक और बाहरी

सुरक्षा स्थिति के साथ-साथ क्षेत्र और

वैश्विक परिदृश्य में विदेश नीति के पहलुओं

ख्वाजा आसिफ, वित्त मंत्री इशाक डार,

आंतरिक मंत्री अहसान इकबाल और अन्य

यहां आयोजित बैठक में विदेश मंत्री

अमेरिका में एक सिख एडवोकेसी ग्रुप नस्लीय हमलों का सामना कर रहे अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में अमेरिकी नागरिकों को जानकारी देने की कोशिश के तहत राष्ट्रीय समाचार चैनलों पर विज्ञापन अभियान शुरू करने वाला है। नेशनल सिख कैम्पेन के सह संस्थापक और वरिष्ठ सलाहकार राजवंत सिंह ने बताया कि 'वी आर सिख्स' विज्ञापन अभियान समाज में सिख अमेरिकियों के योगदानों को दिखाएगा और इस तथ्य को प्रदर्शित करेगा कि सिख मूल्य अमेरिकी मूल्य हैं।

जीवन विकास बिल्डिंग, 30/31 ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली—110002 फोनः 23214201, 23213945 फैक्सः 23216713

प्लॉट की निस्त्रीमें हेब्रा र्यंक्रमीलामी एम.एस.टी.सी. नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण की ओर से लीज के आधार पर प्लॉट सं. 51 व 52, 22.08.2017 एंव प्लॉट सं. 191, 29.08.2017 में भवन तथा खड़े ढांचे के लिए ई-नीलामी आयोजित करेगा। जानकारी के लिए कृप्या श्री सौरभ कुमार (एम.एस.टी.सी.) टेली नं. 011—23219173, श्री आर.पी. वर्मा (एन.एस.ई.जेड.) टेली नं. 0120—2567270 पर सम्पर्क करें।

विवरण हेतु कृपवा हमारी वेबसाइट www.mstcecommerce.com या www.mstcindia.co.in पर लॉग ऑन करें।

Kohínoor Foods Ltd. Regd./Corporate Office: Pinnacle Business Tower, 10th Floor, Suraj Kund, Shooting

Range, Faridabad, Haryana-121001, Ph. No. 0129-4242222, Fax No. 0129-4242233 E-Mail: info@kohinoorfoods.in, Visit us at: www.kohinoorfoods.in CIN - L52110HR1989PLC070351

INTIMATION OF CHANGE OF REGISTERED OFFICE

This is to inform you that the Registrar of Companies, has issued a fresh Certificate of Registration for change of State and allotted new Corporate Identity Number (CIN) i.e. L52110HR1989PLC070351 of the Company vide its Certificate of Registration dated 16th August, 2017. Accordingly the shifting of Registered Office of the Company from Delhi to

Haryana has become effective w.e.f. 16th August, 2017. The present address of the Registered / Corporate Office of the Company is "Pinnacle Business Tower, 10th Floor, Surajkund, Shooting Range, Faridabad, Haryana 121001" Telephone No.:+91-129-4242222, Fax No.: +91-129-4242233, Email: info@kohinoorfoods.in We request you to kindly take note of same.

Date: 16.08.2017 Place: Faridabad

Rama Kant Company Secretary & GM (Legal) FCS NO. 4818

By order of Board

For Kohinoor Foods Limited

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी आवेदन सीएए- 127 (एनडी) 2017

कंपनी आवेदन (एम) सं० ३० (पीबी) 2017 कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 तथा अन्य संबंधित प्रावधानों के मामले में:

कोबेल्को क्रेन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा कोबेल्को कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड व उनके संबंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों के बीच विलयन योजना के मामले में:

कोबेल्को क्रेन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत गठित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय : सी-20, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-11, नई दिल्ली, दिल्ली ... आवेदक-1/ अंतरितक कंपनी

110049 में स्थित है। कोबेल्को कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत गठित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय : सी-20, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-11, नई दिल्ली, दिल्ली- 110049 में स्थित है। ... आवेदक-2/ अंतरिती कंपनी

याचिका सूचना

कोबेल्को क्रेन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा कोबेल्को कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से साझे तौर पर 12 जुन, 2017 को विलयन योजना की मंजुरी हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के तहत एक याचिका दाखिल की गई थी तथा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के नई दिल्ली खंडपीठ के समक्ष उक्त याचिका की सुनवाई की तिथि 31 अगस्त, 2017 को नियत की गई है। उक्त याचिका का समर्थन अथवा विरोध करने को इच्छुक कोई भी व्यक्ति अपने नाम व पते सहित स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित अपने इरादे की सुचना आवेदक के अधिवक्ता को भिजवाएं जो याचिका की सुनवाई की नियत तिथि से दो दिन पहले आवेदन के अधिवक्ता के पास पहुंच जाए। यदि वह याचिका का विरोध करना चाहता है, तो उक्त सूचना के साथ विरोध का आधार अथवा अपने हलफनामे की एक प्रति प्रस्तुत करें। याचिका की प्रति चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को उसके लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिया जाएगा।

दिनांक : 17 अगस्त, 2017 हस्ता/- एडवोकेट राजीव कुमार

(आवेदकों के अधिवक्ता) 34. बाबर लेन. प्रथम तल. बंगाली मार्केट. नई दिल्ली- 110001

SCHABLONA INDIA LIMITED CIN:L51109DL1983PLC318655

Regd.Office: 82/19, Bhakerwara Road, Mundka, New Delhi-110 041;Tel:011-2834 1085 Share Dept.:2,Red Cross Place,Kolkata-700 001 Tel: 033-2248 7406/07

Website:www.schablona.in.Email id:silinvestors@schablona.in EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2017

Particulars	Quarter Ended 30.06.2017 Unaudited	Quarter Ended 30.06.2016 Unaudited		
1 Total Income from Operations	433.28	536.29		
2 Net Profit/(Loss) for the period (before tax,Exceptional and /or Extraordinary items)	(112.78)	(96.45)		
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	(112.78)	(95.72)		
4 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	(112.78)	(95.72)		
5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(116,40)	(98.11)		
6 Equity Share Capital	126.37	126.37		
7 Reserves(excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		(1,014.39)		
Earnings Per Share of Rs.4/-each (for continuing and discontinued operations)				
1. Basic:	(3.68)	(3.11)		
2. Diluted: Note:	(3.68)	(3.11)		

1) The above is an extract of the detailed format of the Quarter ended Financial Results filed with the Stock Exchange, i.e. BSE Limited, under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended Financial Results is available on the BSE Limited website,i.e. www.bseindia.com and on the website of the Company, i.e. www.schablona.in

Place: Noida

Date: 16.08.2017

For SCHABLONA INDIA LIMITED (Satish C. Vishwakarma) Executive Director & CFO (DIN:06891937)

बैठक में सेना के तीनों प्रमुख, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस (आइएसआइ) के महानिदेशक (डीजी), खुफिया ब्यूरो के डीजीएमओ और डीजी भी मौजूद थे। समिति ने नियंत्रण रेखा के इर्द-गिर्द भारतीय बलों हारा 'सीमापार फायरिंग की अकसर होने वाली घटनाओं पर गहरी चिंता' जताई। बैठक में कश्मीर में 'मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन की भी भर्त्सना' की गई।

कश्मीर मुद्दे का समाधान क्षेत्रीय शांति से जुड़ा है: पाक

मंत्री तथा सलाहकार मौजूद थे।

सरकार द्वारा संचालित 'रेडियो पाकिस्तान' ने अपनी रपट में बताया कि एनएससी ने दोहराया कि क्षेत्र की शांति और तरक्की सीधे जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण मुद्दे समेत सभी लंबित मुद्दों से जुड़ी है। समिति ने स्पष्ट किया कि अफगान नीत शांति प्रक्रिया

के माध्यम से अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता को बढाने की उसकी प्रतिबद्धता जारी रहेगी। बैठक में पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं के लिए जिम्मेदार पड़ोसी देश में सभी बाधाओं को हटाने के लिए लोगों और अफगानिस्तान सरकार के साथ मिलकर सभी स्तरों पर काम करने का निर्णय लिया गया।

समिति ने विशेषकर 'राद-उल-फसाद और खैबर-चार' में आतंकवाद विरोधी अभियानों में सफलता मिलने पर संतोष जताया गया और आतंकवादी तत्वों के खात्मा करने तक इन अभियानों को जारी रखने का फैसला किया गया। अधिकारियों के अनुसार एनएससी की बैठक चार घंटे से अधिक समय तक चली।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर. एफ. पी.) विज्ञापन

प्रधान कार्यालय,लोकमंगल 1501, शिवाजी नगर, पुणे-411005

एनपीए में स्लिप हुए खातों की स्टाफ उत्तरदायित्व जांच हेतू. बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त अधिकारियों को पैनल पर लेने के लिए उनसे आवेदन मंगाए हैं. विस्तृत जानकारी दिनांक 21.08.2017 से हमारी वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर टेंडर सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है.

उप महाप्रबंधक, निरीक्षण व लेखा



DION GLOBAL SOLUTIONS LIMITED Regd. Off.: Ground Floor, Prius Platinum, D3, District Centre, Saket, New Delhi - 110017 CIN: L74899DL1994PLC058032 | Website: www.dionglobal.com

Ph. No.: +91 11 46014600 | Fax No.: +91 11 29565966 Pursuant to the provisions of Regulation 47 read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the

Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, August 24, 2017 inter-alia, to consider and approve the Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter ended on June 30, 2017.

This information is also available on the website of the Company i.e. www.dionglobal.com and the website of the BSE Limited (i.e. www.bseindia.com), the Stock Exchange where the Company's shares are listed. For Dion Global Solutions Limited

Place: New Delhi Date: August 16, 2017

Place: KANPUR

Tarun Rastogi

VP - Legal & Company Secretary

मुम्बई पोटे ट्रस्ट आईएसओ 9001:2008 एवं आईएसपीएस अनुपालक पत्तन

निविदा आमंत्रण सूचना

मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा निविदा सं. 120/2017- इन्दिरा डॉक, जीडब्ल्यूएसडी में 12 बी शेड के उत्तर दिशा के भाग में एस्फॉल्टिक सामग्रियों के साथ रीसर्फेसिंग के लिए निविदा सचन में वर्णित प्रमाणिक तकनीकी तथा वित्तीय दक्षताओं के साथ अनुभवी, साधन-संपन्न फर्मों से दो लिफाफा प्रणाली में ऑन लाइन ई-निविदा आमंत्रित है। निविदा का विवरण एनबीपीटी की वेबसाईटः http://www.mumbaiport.gov.in/ तथा http://www.eprocure.gov.in इन पर उपलब्ध है। डाउनलोड के लिए निविदा वेबसाईट पर 14.8.2017 से उपलब्ध है।

KHANDELWAL EXTRACTIONS LIMITED CIN: L24241UP1981PLC005282

Regd. Office: 51/47 Nayaganj, Kanpur 208 001

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2017

	(Rs. in Lak				
SI. No.	Particulars	3 Months ended 30.06.2017 (Unaudited)	Correspondin 3 Months ende 30.06.201 (Unaudited		
1	Total Income from Operations	273.59	327.38		
2	Net Profit/(Loss) for the Period (before Tax,		22.0		
	Exceptional and/or Extraordinary Items)	(41.29)	(0.23)		
3	Net Profit/(Loss) for the Period before Tax (after		28 33		
100	Exceptional and/or Extraordinary Items)	(41.29)	(0.23)		
4	Net Profit/(Loss) for the Period after Tax (after		000000		
	Exceptional and/or Extraordinary Items)	(41.29)	(0.23)		
5	Total Comprehensive Income for the Period				
	[Comprising Profit/(Loss) for the Period (after Tax)				
	and Other Comprehensive Income (after Tax)]	(41.29)	(0.23)		
6	Paid-up Equity Share Capital				
120	(Face Value of Rs. 10/- Per Share)	85.01	85.01		
7	Basic & Diluted Earnings Per Share				
	(of Rs. 10/- each) (for Continuing and				
	Discontinuing Operations) - Not Annualised	2			

. Due to seasonal nature of business the tax provision is considered at the year end, hence profit/loss

figures shown above are before tax and EPS also not calculated. The Company has adopted Indian Accounting Standards ('Ind AS') from 1st April, 2017. The figures for the quarter ended 30th June, 2016 are also Ind AS compliant.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations. 2015. The full formats of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website. www.bseindia.com and on the Company's website: www.khandelwalextractions.com

For and on behalf of the Board of Directors Dinesh Khandelwal

Director (Finance) & CFO DIN: 00161831

Date: 16" August, 2017 एडलवेइस एसेट रीकन्स्ट्रक्शन क. लि. Edelweiss CIN-U67100MH2007PLC174759

एडलवेइस हाउस, ऑफ सी.एस.टी. रोड, कलीना, मुम्बई-400098 कब्जा सूचना [देखें नियम- 8 (1)]

(अचल संपत्ति के लिए) जैसा कि. वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन

अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एडलवेइस एसेट रीकंस्टक्शन कंपनी लिमिटेड (भारतीय स्टेट बैंक के एसाईनी) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 20.5.2016 जारी कर ऋणधारक एडवांस इम्पेक्स प्रा.लि. तथा गारंटरों- i) शिव कुमार गर्ग (निदेशक), ii) श्री राजेंद्र कुमार गर्ग, iii) श्री प्रेम चंद गर्ग, iv) श्री अतुल कुमार गर्ग, v) श्रीमती रीतु गर्ग, vi) श्रीमती मीनाक्षी गर्ग, कॉर्पोरेटर गारंटर- एसआरपी कास्टिंग प्रा.लि. (यहां के बाद सामूहिक रूप से ''गारंटरों'' के रूप में वर्णित) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर स्चना में वर्णित राशि 18.5.2016 को रु. 1,15,63,65,635/- (रुपए एक सौ पंद्रह करोड़ तिरेसठ लाख पैंसठ हजार छः सौ पैंतीस मात्र) तथा अनुबंधित दर पर ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/ गारंटरों इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, गारंटरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त सरफैसी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत माननीय जिला मजिस्ट्रेट में निहित शक्तियों के अनुसार माननीय जिला मजिस्ट्रेट, हापूड द्वारा पारित आदेश तिथि 13 अप्रैल, 2017 के अनुपालन में नायब तहसीलदार ने नीचे क्रम सं. 1 से 3 में वर्णित संपत्तियों का भौतिक कब्जा कर लिया है तथा उसे 11 अगस्त, 2017 को एडलवेइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (भारतीय स्टेट बैंक के एसाईनी) (यहां के बाद ईएआरसी के रूप में वर्णित) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी को सौंप दिया है। ऋणधारकों/ गारंटरों का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट किया जाता है।

एतदहारा विशेष रूप से ऋणधारकों/ गारंटरों को सतर्क किया जाता है कि वे इन संपत्तियों का कारोबार न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का कारोबार 18.5.2016 को रु. 1.15.63.65.635/- (रुपए एक सौ पंद्रह करोड तिरेसठ दस लाख पैंसठ हजार **छ: सौ पैंतीस मात्र**) के साथ उक्त तिथि के बाद भारतीय स्टेट बैंक (ईएआरसी के एसाइनर) द्वारा आगे वसल की गई राशि को घटाकर उस पर ब्याज, चार्जेज एवं लागतों के लिए ईएआरसी के चार्ज के अधीन होगा।

अचल संपत्तियों का विवरण

1. मै. एडवांस इम्पेक्स प्रा.लि. के स्वामित्व में उसमें स्थित प्लांट एवं मशीनरी तथा अन्य मुवेबल्स सिहत खसरा नं. 475, 476 तथा 484, ग्राम चिजर्सी, कुलिच नगर, पिलखुआ, गाजियाबाद, उ.प्र. में स्थित फैक्ट्री भूमि एवं भवन, माप 8326 वर्ग मी. का सभी भाग

. उसमें स्थित प्लांट एवं मशीनरी तथा अन्य मुवेबल्स सहित एसआरपी कास्टिंग प्रा.लि. के स्वामित्व में खसरा नं. 476 तथा 484, ग्राम चिजर्सी, कुलिच नगर, पिलखुआ, गाजियाबाद, उ.प्र. में फैक्ट्री भूमि एवं भवन, माप 7186 वर्ग मी. का सभी भाग तथा

. उसमें स्थित प्लांट एवं मशीनरी तथा अन्य मुवेबल्स सहित एडवांस इम्पेक्स प्रा.लि. के

स्वामित्व में खसरा नं. 690 एवं 693, ग्राम खेरा देहात, पिलखुआ, गाजियाबाद, उ.प्र. में फैक्ट्री भूमि एवं भवन, माप 13,955 वर्ग मी. का सभी भाग तथा हिस्सा।

तिथि: 11 अगस्त, 2017 स्थानः पिलखुआ, गाजियाबाद

प्राधिकृत अधिकारी एडलवेईस एसेट रीकंस्टक्शन कंपनी लि.

nSBI आईटी-टीएसएस, जीआईटीसी, ओमसागर बिल्डिंग नेरूळ, एमआईडीसी, नवी मुंबई शुद्धिपत्र क्र.1

बँक के अधिकृत वेबसाईट पर प्रकाशित शुध्दिपत्र सं. 1 दिनांक 16.08.2017 के तहत दिनांक 26.07.2017 की निविदा अन्य नियमों एवं शर्तों की आरएफपी नं. एसबीआई-जीआईटीसी/आईटी-टीएसएस/2017-18/409 के लिए निविदा प्रस्तुत करने की तिथि को विस्तार करने का निर्णय लिया है। विस्तृत विवरण हमारी अधिकृत वेबसाईट www.sbi.co.in की प्रोक्यूरमेंट न्यूज के अतंर्गत उपलब्ध हैं।

डीजीएम (आईटी-टीएसएस)

"IMPORTANT" Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify contents. The Indian Express (P) Limited cannot be neld responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies. associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries pefore sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

स्थानः नई दिल्ली

੧ਓੰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)

एआरबी-1, 4था तल, 21, बैंक हाउस राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के सं. 54) के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने मांग सूचना तिथि तालिका में नीचे वर्णित जारी कर ऋणधारकों तथा गारन्टरों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि, तालिका में नीचे वर्णित वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक तथा गारन्टर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि तालिका में नीचे वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस राशि तथा उस पर ब्याज के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारकों का ध्यान प्रतिभत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट किया जाता हैं।

ऋणधारक तथा गारन्टरों का नाम	गिरवी रखी/चार्ज्ड संपत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि	कब्जा की तिथि	बकाया राशि	
ऋणधारकः मै. चुन्नू इन्टरनेशनल	श्री एल.के. सरीण तथा श्री बी.एम. सरीण	9.2.2010		रु. 8,82,30,281/- के	
गारन्टर्सः1) श्रीमती ममता सरीण	के स्वामित्व की संपत्ति कार्यालय संख्या			साथ 01.02.2010 से आगे	
2) श्रीमती विजय लक्ष्मी सरीण	32 तथा 33, 9 सोमदत्त चैम्बर्स, भीकाजी			का ब्याज, खर्चे एवं उस पर	
3) श्री बी.एम. सरीण	कामा प्लेस, नई दिल्ली के बेसमेन्ट का			अन्य चार्जेज आदि।	
4) श्री ललित कृष्ण सरीण	सभी भाग तथा हिस्सा।				
5) मै. दीपक क्लॉथिअर (एल.के. सरीण एंड सन्स का एक					
यूनिट)					
तिथि: 11.8.2017 प्राधिकृत अधिका					